

## पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

### मई, 2021 माह के लिए मासिक उपलब्धियां

#### कोविड राहत उपाय

देश में ऑक्सीजन और संबंधित उपकरणों की बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 111 के अंतर्गत दिनांक 23.04.2021 को निर्देश जारी किए गए हैं कि कामराजार पत्तन लिमिटेड सहित सभी महापत्तन न्यासों द्वारा उगाहे जाने वाले सभी प्रभारों (जलयान संबंधित प्रभारा, भंडारण प्रभार आदि) माफ कर देंगे और मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टैंक, ऑक्सीजन बोतल, पोर्टेबल ऑक्सीजन जेनरेटर, ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडरों के उत्पादन के लिए स्टील के पाइप और संबंधित उपकरणों को ले जाने वाले जलयानों को अगले 3 महीनों, अथवा अगले आदेश होने तक, बर्थिंग क्रम में उच्चतम प्राथमिकता देंगे।

इसके साथ ही, ड्यूटी के दौरान कोविड-19 के कारण मृत हुए पत्तन कर्मचारियों/श्रमिकों के प्रत्येक सदस्य/कानूनी उत्तराधिकारी के प्रत्येक आश्रित के लिए 50 लाख रु. की मौद्रिक क्षतिपूर्ति योजना को दिनांक 01.04.2021 से 30.09.2021 तक अगले 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है।

सभी महापत्तनों ने पत्तन के अंदर स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आईसीयू सुविधाओं में सुधार लाने, तथा वेंटिलेटर और ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए भी उपाय किए हैं।

#### पत्तन निष्पादन

(i) श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता में अप्रैल-मई, 2020 के दौरान संभाले गए 7.438 एमटी कार्गो के सापेक्ष अप्रैल-मई 2021 की अवधि के दौरान 9.090 मिलियन टन (एमटी) कार्गो की संभलाई की है और इस प्रकार कोविड-19 की दूसरी लहर के आगमन और 'यास' तूफान के बावजूद 22.21% की वृद्धि दर्ज की।

(ii) मई, 2021 के दौरान नव मंगलूर पत्तन में भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन समुद्रसेतु-II के अंतर्गत बहरीन/कुवैत राजशाही और कुवैत के भारतीय समुदाय द्वारा भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी को दान के रूप में प्रदत्त 370 एमटी तरल चिकित्सा ऑक्सीजन के कंटेनरों को लाने वाले भारतीय नौसेना 5 जलयानों की संभलाई की गई है।

(iii) वी. ओ. चिंदबरनार पत्तन में बर्थ सं. IX पर 92,935 टन कोयले के साथ जलयान 'एमवी बेस्टियन्स' के लिए सबसे बड़े आकार वाले कोयला जलयान की संभलाई के लिए नया रिकॉर्ड बनाया और इस प्रकार पत्तन ने दिनांक 11.04.2021 को 92,028 टन कोयले के साथ जलयान 'एमवी स्टार साइरस' संभलाई के साथ सबसे बड़े आकार के पार्सल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

#### अंतर्देशीय जल परिवहन

(i) आईडब्ल्यूआई ने अपनी फील्ड इकाईयों, एनडीएमए, एसडीएम तथा अन्य राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के निकट सहयोग के साथ यह सुनिश्चित किया कि यास तूफान के कारण इसके रास्तों में जीवन अथवा संपत्ति का कोई नुकसान नहीं हुआ।

- (ii) आईडब्ल्यूआई द्वारा सफल परीक्षणों और जांचों के उपरांत तीन फ्लोटिंग पोंटूनो नामतः एफ. पी. कृष्णा-I, एफ. पी. कृष्णा-II और एफ. पी. कृष्णा-III को निर्माता अर्थात् मैसर्स वॉटरवेज़ शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड, गोवा से अपने अधिकार में ले लिया गया है। इनको पर्यटन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार के साथ हुए एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्ग-4 में तैनात करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को सौंपा जा रहा है।
- (iii) मई, 2021 माह के दौरान धुबरी (असम) टर्मिनल पर 4412 एमटी राहत सामग्री/सामान (चावल और अन्य खाद्य सामग्रियों) की संभलाई की गई।
- (iv) मई, 2021 माह के दौरान "अंतर्देशीय जल पारगमन एवं व्यापार मार्ग" के माध्यम से 3,62,167 एमटी कार्गो की ढुलाई की गई।
- (v) मई, 2021 के दौरान मैसर्स ज्यूप्रो प्रोजेक्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रा.ज.-1 में अडाणी पॉवर (झारखंड) लिमिटेड के 396.80 एमटी वजन वाले एक ओडीसी कंसाइनमेंट को कोलकाता (पश्चिम बंगाल) से कहलगांव (बिहार) ले जाया गया।
- (vi) रा.ज.-1 में 1,82,800 एमटी स्टोन चिप्स को साहिबगंज (झारखंड) से मनहारी (बिहार) तक सफलतापूर्वक ले जाया गया।